

चल संपत्ति रिटर्न फॉर्म/ MOVABLE PROPERTY RETURN FORM

पर चल संपत्ति का विवरण/STATEMENT OF MOVABLE PROPERTY  
ON \_\_\_\_\_.

1. अधिकारी का नाम (पूरा)/Name of the officer (in full): \_\_\_\_\_

2. वर्तमान पद धारित (पूर्ण में)/Present post held (in full): \_\_\_\_\_

3. 7<sup>th</sup> सीपीसी के अनुसार वर्तमान वेतन मैट्रिक्स स्तर/Present Pay Matrix Level as per 7<sup>th</sup> CPC :  
\_\_\_\_\_.

=====

बैंक जमा, शेयर, प्रतिभूतियां, डिबेंचर, मोटर वाहन आदि।

Bank Deposits, Shares, Securities, Debentures, Motor vehicles etc.

राशि/Amount	बैंक का नाम/Name of the Bank	मूल्य का विवरण/शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचर आदि के अधिग्रहण की तारीख  /Description of value/ Date of acquisition of shares, securities, debentures etc.
i) _____	_____	_____
ii) _____	_____	_____
iii) _____	_____	_____

मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं कि उपरोक्त घोषणा सत्य है/ I solemnly affirm that the above declaration is true.

हस्ताक्षर/Signature \_\_\_\_\_

नाम/Name \_\_\_\_\_

पदनाम/Designation \_\_\_\_\_

स्वीकृत/ACCEPTED

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर/Signature of Head of Office

---